

September 5, 2022

The General Manager
Department of Corporate Services **BSE Limited**25<sup>th</sup> Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: 539199

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement regarding 28<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company through Video Conferencing/Other Audio Visual Means

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, we are enclosing herewith copy of Newspaper clippings from the "Financial Express" and "Jansatta" dated 4<sup>th</sup> September, 2022 where a Public Notice has been published by the Company in compliance with MCA Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020, before sending the Notice of the ensuing Annual General Meeting (AGM) together with the Annual Report to all the Members of the Company and other persons so entitled.

Please note that the AGM of the Company has been scheduled to be held on 30<sup>th</sup> September, 2022 through VC (Video Conferencing)/ OAVM (Other Audio Visual Means).

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully

For Moongipa Securities Limited

Sachin Kumar Company Secretar

Encl: a/a

Corp. Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Ghaziabad, U.P.-201010, India, Tel: +91-120-4041 400

E-mail: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net

**FE SUNDAY** 

## PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 31(2) & 31 (A) read with regulation 12 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016 as amended on 28th April 2022

#### For the attention of Stakeholders of Shree Ambika Sugars Limited (In Liquidation) Registered Office: 'El-Dorado' 5th Floor 112 Nungambakkam High Road,

Chennai, Tamil Nadu 600034 India Pursuant to Regulation 31(2) of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations ("Regulations") 2016, Public Announcement is hereby made for all the Stakeholders of SHREE AMBIKA SUGARS LIMITED (In Liquidation) that the list of Stakeholders showing the complete amount of claims admitted by the Liquidator (modified, if any) has been filed on 02.09.2022 with the Hon'ble NCLT, Chennai II Bench, Chennai, the Adjudicating Authority.

The List of Stakeholders, as modified, from time to time, shall be

a) Available for inspection by the persons who submitted proofs of claim and

b) Available for inspection by members, Partners, Directors and Guarantors of the of the corporate debtors At Liquidator's office at :- 10/349, First Floor, Sunder Vihar, New Delhi – 110087. Email: cirp.ambikasugars@caanurag.com (for correspondence)

As well as on the website www.ambikasugars.in, and on the website of the Board i.e. www.ibbi.gov.in for the purpose. The liquidator has also constituted Stakeholders' consultation committee and therefore

requested Operational Creditor, Farmers, Workers & Employees, Govt Departments to nominate their one authorized representative (AR's fees/charges will be borne by each class

Till the time liquidator will keep One member from each of above class of creditors based on highest claim in each class.

Date: 03.09.2022 Place: Chennai

Anurag Goel (Liquidator) Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00876/2017-2018/11460

#### B.C. POWER CONTROLS LIMITED

(CIN: L31300DL2008PLC179414) Registered Office: 7A/39, WEA Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-110005 Email: info@bonlongroup.com, Website: www.bcpowercontrols.com Phone: 011-47532795, Fax: 011-47532798

NOTICE OF THE 14™ ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 14" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be

held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday, 28" September, 2022 at 02:00P.M. (IST) to transact the business, as set out in the Notice of the 14" AGM.

In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 02/2021 and 03/2022 dated 08" April, 2020, 13" April, 2020, 05" May, 2020, 13" January, 2021 and 05th May 2022 respectively and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRP/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12" May, 2020 and 15" January, 2021, respectively, the Notice of 14" AGM and Annual Report 2021-22 have been sent in electronic mode, only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/the depository participants. The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on 03" September, 2022. The aforesaid Notice and Annual Report are available on the website of the Company i.e. www.bcpowercontrols.com and website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEB! (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2), the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of AGM through VC/OWVAM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depository Limited (NSDL). The procedure/instructions in this respect-have been provided in notes to the Notice of AGM.

The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. 21st September 2022, shall be eligible to cast vote by remote evoting or attend the meeting through VG/OAVM and cast vote at AGM. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date, The remote e-voting period shall commence on Sunday 25th September 2022 (09.00 A.M. IST) and end on Tuesday 27th September, 2022 (05.00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the members through remote e-voting, he shall not be permitted to change it subsequently. Members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled for cast their votes again,

Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, 21 September 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@insdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID-and password for casting your vote.

Mr. Sanjeev Dabas, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by sending request mentioning their name, demat account/folio number, email id, mobile number through their registered e-mail to the Company at info@bonlongroup.com on or before 25" September, 2022 along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the shareholders, self-attested copy of PAN/other identity and address

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register update their email addresses with their Depository Participants

In case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing; 4" Floor, Kamala Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email id:evoting@nsdi.co.in.

For B.C. Power Controls Limited

Date: 03" September, 2022

Place: New Delhi

Chander Shekhar Jain (Managing Director) DIN: 08639491

MAX

### MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED CIN: L72200MH2001PLC322854

Registered Office: 401, 4th Floor, Man Excellenza, S. V. Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056

Maharashtra

Email: investors@maxhealthcare.com Website: www.maxhealthcare.in

NOTICE OF 21<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING ("21<sup>ST</sup> AGM") TO

#### THE MEMBERS, REMOTE E-VOTING INFORMATION, ETC. Dear Member(s), NOTICE is hereby given that the 21th AGM of Max Healthcare Institute Limited

("the Company") will be convened on Monday, September 26, 2022 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means ("VC OAVM") in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry o Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India ("Circulars") The Notice of 21th AGM and the Annual Report for the year 2021-22, interalia, including the Financial Statements (Standalone and Consolidated) for the financial year ended March 31, 2022 ("Annual Report") has been sent electronically to all those Members, whose email addresses are registered with the Depository Participants (DPs) or Company in accordance with the Circulars The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and

Annual Report to the Members have been dispensed with vide Circulars. Members holding shares of the Company as on cut-off date i.e. September 19, 2022, may cast their vote electronically on the businesses, as set out in the Notice of 21st AGM through e-voting platform of Link Intime India Private Limited ("LIIPL"):

- the businesses, as set out in the Notice of 21st AGM, will be transacted through voting by electronic means;
- the date of completion of sending of Notice of 21st AGM through email is the remote e-voting shall commence on Friday, September 23, 2022 at
- the remote e-voting shall end on Sunday, September 25, 2022 at 5:00 pm
- the cut-off date is Monday, September 19, 2022 for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through the e-voting
- system during the 21st AGM; Any person, who acquire shares of the Company and become Member after dispatch of Notice of 21st AGM by email and holds shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password by sending request to LIIPL at rajiv.ranjan@linkintime.co.in or delhi@linkintime.co.in. However,

use your existing user ID and password for casting your vote.

if you are already registered with LIIPL for remote e-voting, then you can

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote during remote e-voting period may participate in 21st AGM through VC/ OAVM facility but shall not be entitled to cast vote again through the e-voting system during 21st AGM; c) the Member participating in 21st AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during 21st AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners

maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be

- entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in 21th AGM through VC/ OAVM facility and e-voting during the 21st AGM. viii) Notice of 21st AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 are available on the website of the Company at https://www.maxhealthcare.in/investors, website of Stock Exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of LIIPL at www.linkintime.co.in and for the process and manner of electronic voting, Members may go through the instructions mentioned in the Notice of 21st AGM or Instavote e-voting
- manual available at https://instavote.linkintime.co.in. In case of any gueries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President e-voting, LIIPL, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, at E-mail ID: enotices@linkintime.co.in at telephone no. 022-49186000 who will address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company at investors@maxhealthcare.com
- Those members who have not yet registered their email addresses are requested to get their email addresses registered by contacting the DP and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

Place: Gurugram (Haryana)

financialexp.epapr.in

By order of the Board Max Healthcare Institute Limited

Ruchi Mahajan Date: September 03, 2022 SVP- Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata

Date: 03.09.2022

**MORN MEDIA LIMITED** 

CIN: L22121UP1983PLC006177 Registered Office: Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar Kanpur-208005 Telephone No.: +91 512 2216161, E-mail: mornmedialimited@hotmail.com

Website: www.mornmedia.com NOTICE OF 39<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 39" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Morn Media Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 01:30 P.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM ("the Notice") dated May 25, 2022. The Company has sent notice of AGM together with the Annual Report on Saturday September 03, 2022, through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories in compliance with the relevant circulars, Provisions of the Act and Listing Regulations. The Members are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants to receive copies of the Annual Report 2021-22 in electronic mode.

The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.mornmedia.com and on the website of the Stock Exchange, i.e., Metropolitan Stock Exchange of India www.msei.in & on the website of the Central Depository Services Limited at www.cdslindia.com, facility for appointment of proxy will not be available. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings and relevant provisions of Listing Regulations, each as amended time to time, the Company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote electronically, through e-voting services provided by CDSL from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), on all resolutions as set out in the Notice. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The manner of remote evoting and voting at AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is

The Members of the Company are further informed as follows:

 a) The remote e-voting will commence on Saturday, September 24, 2022 (9:00 A.M. IST) and end on Tuesday, September 27, 2022 (5:00 P.M. IST). At the end of the remote e-voting period, the facility shall be disabled.

 A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Ownership maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote, e-voting as well as voting at the AGM in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company. A person who is not the

member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. c) In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM

 f) Facility for e-voting shall also be made available at the AGM for those members who attended the AGM and who have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again. ) Mr. Adesh Tandon, Practising Company Secretary has been appointed as the

transparent manner. The results on resolutions shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of the requisite number of votes in favor of the resolutions If you have any gueries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-

Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and

Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and evoting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact (toll free No. 1800-2255-33). ) The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the corporate website of the Company, www.mornmedia.com and on CDSL's website

at https://www.cdslindia.com/ and communicated to Metropolitan Stock Exchange of India Limited. Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 21, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the

Place: Kanpur Date: September 03, 2022

Membership No.: A60251

For Morn Media Limited

Company Secretary and Compliance Officer

(Ravina Soni)

## YAMINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED

(CIN: L67120MH1983PLC029133) Regd. Off.: D-215, CRYSTAL PLAZA, OPP. INFINITY MALL, NEW LINK ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI- 400 053; Tel.: 022-40164455; E-mail ID:yaminiinvestments@gmail.com;

Website:www.yaminiinvestments.com 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATE(S) AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The 39TH Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, September 26TH, 2022 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. In compliance with MCA Circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020

SEBI Circular dated May 12, 2020, the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act")

the Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice convening the 39th Annual General Meeting (AGM) Dated: 19/08/2022 is mailed to the respective e-mail ID registered with the Company further it has been dispatched online and is also available for download from the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and at the website of the Company at www.frontierwarehousing.com Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time

to time, Members have been provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM dated: 19/09/2022 using electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited for providing facility for remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and voting at the AGM. The e-voting portal of NSDL https://www.evoting.nsdl.com/ will be open for voting from

Friday, 23rd September, 2022 (10:00 A.M. IST) to Sunday, 25th September, 2022 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module will be disabled by National Securities Depository Limited for voting thereafter. During this period, a person whose name is recorded in the Registrar of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 19th September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 19th September, 2022, may obtain the User Id and password in the manner as provided in the Notice of the AGM. Only those Members/shareholders who will be present in the AGM through VC/OAVM

facility and have not cast their vote through remote e-voting are eligible to vote at the

AGM. However, Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Instructions for the Members for attending the AGM through Video Conference are provided in the Notice of the 39th Annual General Meeting. The manner of voting remotely ("remote e-voting") is also provided in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the

AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM. Members holding shares in physical mode who have not yet registered/updated their mail

IDs, are requested to update the same by emailing the scanned copies of the below

mentioned documents at yaminiinvestments@gmail.com -Signed request letter mentioning name, address, folio no. mobile no. and e-mail ID of

-Scanned copy of share certificate (Front and back)

-Self-attested PAN card. -Self-attested copy of address proof.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their

e-mail ID with the relevant Depository Participants with whom they maintain their Demat The results of e-voting will be placed by the Company on its website

www.vaminiinvestments.com within two days of the AGM. The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the Annual General Meeting subject to receipt of the requisite number of votes in favor of the

resolutions. Member may also send their query in writing through yaminiinvestments@gmail.com on or before date: 19.09.2022, which would be replied by the Chairman at the time of the

meeting. For this purpose, it would not be necessary to register as speaker. M/s. Nitesh Chaudhary & Associates. Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholde of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

**BOOK CLOSURE** The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain

closed from Tuesday, 20th September, 2022 to, Monday, 26th September, 2022 (both days For YAMINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED

Kalpana Agarwala Date: 02nd September, 2022 Place: Mumbai

**Company Secretary** M. No: 61351

### MOONGIPA SECURITIES LIMITED

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corporate Identity Number: L74899DL1994PLC057941 Tel.: 91-11-22373437, Website: www.moongipa.net email: moongipacs@gmail.com

NOTICE TO THE MEMBERS FOR THE 28™ ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that 28" AGM of the Company will be held on Friday, September 30, 2022 at 11.00 A.M. through VC facility, as per the provisions of the Companies Act, 2013 "Act") and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 respectively and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the relevant SEBI and MCA Circulars, the Notice of the 28" AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year that ended on March 31, 2022, along with login details for joining the 28" AGM through VC facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail addresses are already registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 28" AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular(s). Members can join and participate in the 28" AGM through VC facility only. The instructions

for joining the AGM are provided in the Notice. Members participating through VC facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 28th AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.moongipa.net), Stock Exchange' websites (www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com). The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the 28" AGM. Detailed instructions for remote e-voting are provided in the said Notice. The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by CDSL. The remote e-voting period commences on September 27, 2022 (10:00 A.M.) and ends on September 29, 2022 (05:00 P.M.). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, September 23, 2022, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through VC / OAVM shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act. Members who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can

register their e-mail address for receipt of Notice of 28th AGM, Annual Report and login details for joining the 28" AGM through VC facility including e-voting by sending a request to M/s Skyline Financial Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent at compliances@skylinerta.com or to the Company at moongipacs@gmail.com, by providing their name, folio number/DPID & Client ID, client master or copy of consolidated account statement (in the case of demat holding), copy of share certificate - front and back (in the case of physical holdings), self- attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support for registering e-mail address. In case of demat holding, please contact your DP and register email address and bank account

details in your demat account, as per the process advised by your Depository Participant. Any person who acquires shares and becomes Member of the Company after the date of

electronic dispatch of Notice of 28" AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 23, 2022, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 28th AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

If you have any gueries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800225533 The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2021-22 will be sent to members in

accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course. For and on behalf of Moongipa Securities Limited

Date: September 3, 2022 Place: Delhi

Sachin Kumar Company Secretary M.No.: A61525

#### RICHFIELD FINANCIAL SERVICES LIMITED CIN: L65999WB1992PLC055224

2B, GRANT LANE, 2ND FLOOR, KOLKATA, WB-700012 EMAIL: rfsl.nbfc@gmail.com; Website: www.rfslco.in.

NOTICE OF THE 30TH AGM - E-VOTING AT THE AGM & BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will

be held on Thursday, 29th September, 2022 at 2 PM (IST), through video conference/ other audio visual means in compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 and all other applicable laws and circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Government of India and Securities and Exchange Board of India ('SEBI' to transact the businesses that is mentioned in the Notice of the Meeting.

In compliance with the above circulars and lowing to the difficulties involved in dispatching

the physical copies, kindly note that electronic copies of the Notice of the AGM and Annual

Report for FY2021-2022 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) within the prescribed timeline. The notice of the 30th AGM and Annual Report for FY 2021-2022 will also be made available on the Company's website, at www.rfslco.in., Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the depositories' website. These documents can also be downloaded from www.rfslco.in.as well as on the website of Bombay Stock Exchange. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their email

participants. Members holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. Niche Technologies Private Limited(herein referred as 'RTA') Company shall provide remote & E-Voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the

addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary

facility of voting through E-Voting system during the AGM. Detailed procedure is provided Notice is further given that, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 23rd September, 2022 to Thursday, 29th September, 2022 (both days

In compliance with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing its members, facilities for remote e-voting. Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date of Thursday 22nd September 2022, may cast their vote electronically on the businesses set forth in the Notice of 30th AGM through the electronic voting system, from a place other than the place of venue of

the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

- The businesses as set forth in the Notice of 30th AGM may be transacted through e-
- The remote e-voting shall commence on 26th September 2022 (9.00 a.m.) The remote e-voting shall end on 28th September, 2022 (5.00 p.m.).
- IV. The cut-off date for determining the eligibility for e-voting is Thursday, 22nd September 2022. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the company after the dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., Thursday, 22nd September, 2022 may obtain login ID and password by sending an email to nichetechpl.com. However, if a person is already registered with for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
- Members holding shares in physical form who have not registered their mail addresses with the Company/Depositories may obtain the Annual Report and log in and password for E-voting providing the below necessary details:
  - Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR card) by email to Company at rfsl.nbfc@gmail.com or to Registrar & Share Transfer Agent at nichetechpl.com. ii) For Demat Shareholders-Please provide Demat account details (CDSL-16-digit

i) For Physical Shareholders-Please provide necessary details like Folio No.

AADHAR (self attested scanned copy of AADHAR card) by email to Company atrfsl.nbfc@gmail.comor with your respective Depository Participant (DP) However, if a person is already registered for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID +CLID), Name, Client master or copy of

consolidated Account statement, PAN (Self attested scanned copy of PAN card),

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com VI. Members eligible to vote may note that:

the member shall not be allowed to change it subsequently; The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their voted again; and

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

Lakshmmi Subramanian & Associates, Practising Company Secretaries, having


beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only

The remote e-voting module shall be disabled after 5.00 p.m. on Wednesday,

28th September, 2022 and once the vote on a resolution is cast by the member,

- shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. d) If a member cast votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and e-voting during the AGM shall be treated as invalid. VII. The company has appointed Ms. Lakshmmi Subramanian, Senior Partner, M/s
- office at "Murugesa Naicker Complex, No.81, Greams Road, Chennai-600006 as the scrutinizer to scrutinise the e-voting process and poll at AGM in a fair and VIII. The results of e-voting will be announced by the Company on its website www.rfslco.in. and also to stock exchanges at www.bseindia.in.
  - By Order of the Board

For Richfield Financial Services Limited Mr. Vadasseril Chacko Georgekutty (DIN: 09194854) Managing Director



# Jubilant Pharmova Limited

(CIN: L24116UP1978PLC004624)

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India

E-mail: investors@jubl.com; Website: www.jubilantpharmova.com Phone: +91-5924-267437

#### NOTICE OF 44TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled

to be held on Monday, September 26, 2022 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business as listed in the Notice dated July 1, 2022 in compliance with the circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as the 'MCA Circulars') and circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 read with circulars dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as the 'SEBI Circulars'). The members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice.

44th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 has been sent on September 3, 2022, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participants or Registrar and Transfer Agent ('RTA'). Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and Regulation

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice convening

44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), the Company is providing electronic voting ('e-Voting') facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business given in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting facilities provided by the National Securities Depository Limited ('NSDL').

Members are further informed that (a) Remote e-Voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Friday, September 23, 2022 and end at 5:00 p.m. (IST) on Sunday, September 25, 2022; (b) Remote e-Voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Sunday, September 25, 2022; (c) No remote e-Voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (d) The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Monday, September 19, 2022. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on the Cut-off date; (e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. Monday, September 19, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/ RTA. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-Voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30; (f) The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the members who have not exercised their vote through remote e-voting, to cast their voting rights; (g) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/ OAVM means, but shall not be entitled to cast their e-vote again; (h) the Notice of the AGM and the Annual Report have been displayed on the Company's website www.jubilantpharmova.com at web-link https://www.jubilantpharmova.com/investors/financials/annual-reports and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Process for registration of E-mail IDs is given below for those shareholders whose E-mail IDs are not registered:

- a) In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to investors@jubl.com or rta@alankit.com.
- b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to investors@jubl.com or rta@alankit.com.

For e-Voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of the AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, NSDL, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India through e-mail at evoting@nsdl.co.in or on Toll Free No.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or Mr. J.K. Singla, Deputy General Manager, M/s. Alankit Assignments Limited, 205-208, Anar Kali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India through email at rta@alankit.com or on Telephone

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within 2 working days of conclusion of the AGM. The results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.jubilantpharmova.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges.

> Naresh Kapoor Company Secretary

For Jubilant Pharmova Limited

0

Date: September 03, 2022

Place: Noida

New Delhi

केनरा बैंक 🛆 Canara Bank

कब्जा सुचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहाँ के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचन तिथि 13.04.2022 जारी कर ऋणधारक मै. होडल दाल मिल को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 58,20,505.16/- (रु. अन्ठावन लाख बीस हजार पांच सौ पांच एवं पैसे सोलह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज, 29 अगस्त, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 38.93.321.80/-(रु. अड़तीस लाख तिड़ावने हजार तीन सौ इक्कीस एवं पैसे अस्सी मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पंजीकरण उप जिला होडल तथा जिला पलवल के भीतर खसरा/खाता नं. 147/176. खसरा नं. 702 ( 10-3 ), 703 ( 8-1 ), खाता/खतोनी नं. 139/162, खसरा नं. 702 ( 10-3 ), 703 ( 8-1 ), रेलवे रोड, होडल में शामिल सम्पत्ति माप 6 के तथा 1 एम का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दी : उत्तर : रेलवे रोड, दक्षिण : आवासीय सम्पत्ति/हरिजन कॉलोनी, पूर्व : दाऊ दयाल अशोक कुमार का प्लॉट, पश्चिम बगीची मेरोलियन

तिथि: 4.8.2022, स्थान: होडल प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक



#### **NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LIMITED** CIN: L74899DL1987PLC026617

Regd. Office: 3rd Floor, Surva Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025, E-mail: cs@modisteel.net, Website: www.modisteel.com, Phone: 011-49872442, 19

## PUBLIC NOTICE – 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of National General Industries Limited ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated 5th May, 2022 read with circular dated 13th January, 2021, 8th April, 2020, 13th April, 2020 & 5th May, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circular dated 13th May, 2022 (collectively referred to as Circulars), on Friday, 30th September, 2022 at 1:30.P.M. to transact the business as set out in

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices.

2021-22 of the Company will be available on the website of the Company at www.modisteel.com and also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, in due course of time. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant, please follow the process of registering the same as mentioned

1	ny	SICa	н	old	ing

Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinerta.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of

cheque to our RTA (i.e. Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase -I, New Delhi-110020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.) Please contact your Depositary Participant (DP) and

**Demat Holding** 

register your email address as per the process advised by Please also update your bank detail with your DP for

dividend payment by NACH if declared by company.

Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular.

For National General Industries Ltd.

Place: New Delhi Date: 2nd September, 2022

Company Secretary A-24012

#### Shivalik Bimetal Controls Limited CIN: L27101HP1984PLC005862 16-18, New Eectronics Complex Chambaghat, Dist. Solan,

Himachal Pradesh - 173 213 Phone: + 91-11- 26027174 Fax: + 91-11- 26026776 investor@shivalikbimetals.com | www.shivalikbimetals.com

# NOTICE OF THE 38" ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 38" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 27th day of September, 2022 at 10.30 AM (IST) at 4th Floor Hotel City Heights. City Centre Plaza, The Mall (Opposite District Courts), Solan (H.P.)-173212 to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 29" August, 2022.

In terms of the provisions of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions, the Notice setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at the AGM together with the Attendance Slip and Proxy Form along with the Annual Report for financial year 2021-22 on Saturday, September 03, 2022 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/RTA and the physical copies were dispatched to the other shareholders through permitted mode.

The aforesaid documents are also available on the Company's website a www.shivalikbimetals.com, on the website of stock exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent, MAS Services Limited at www.masserv.com.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings and relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), each as amended from time to time, the Company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote electronically, through evoting services provided by National Securities Depository Ltd. ("NSDL") from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), on all resolutions as set out in the Notice. The manner of remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice.

The Members of the Company are further informed as follows:

Date of Completion of dispatch of notice: 03" September, 2022;

The remote e-voting shall commences on Saturday, September 24, 2022 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 26, 2022 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 20, 2022 ('Cut-off date") Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM.

Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again

. The members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on September 20, 2022, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. A person who is not a member

as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this

Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries and/or grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders

info@masserv.com phone: - 011-26387281-83 Mr. Amit Saxena, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.

. The results on resolutions shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of requisite number of votes in favour of the resolutions.

www.masserv.com and will also be communicated to BSE Limited and NSE Limited. Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company pursuant to Section 91 of the Act will remain from Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Shivalik Bimetal Controls Limited

(Aarti Sahni)

# वैक ऑफ़ इंडिया BOI

झण्डेवालान एक्स्टेंशन शाखा 3ई/4, झण्डेवालान एक्स्टेंशन शाखा*,* नई दिल्ली-110055

कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिये) परिशिष्ट-IV [देखें नियम-8(1)] जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, झण्डेवालान एक्स्टेंशन के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.6.2022 जारी कर ऋणधारक श्री विशाल कुमार (मै. जेएमडी सिल्वर इंडिया के प्रॉप्साइटर) तथा गारंटर एवं मार्टगैजर श्रीमती बबीता श्रीवास्तव को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. 30,15,617/- (रु. तीस लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तरह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदहारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 31 अगस्त, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदृहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 30,15,617/- (रु. तीस लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तरह मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ए-9, नरेला, दिल्ली-110040 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। दक्षिणः रोड उत्तरः खुला/पार्क, पूर्वः रोड/खुला, पश्चिमः फ्लैट नं. 99/प्रवेश

तिथि: 31.8.2022

(बैंक ऑफ इंडिया, झण्डेवालान एक्स्टेंशन) स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

# मगीपा सिक्योरिटीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ३७, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः** L74899DL 1994PLC057941 दूरभाषः 91-11-22373437, वेबसाइटः www.moongipa.net ईमेलः moongipacs@gmail.com

एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") एवं उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी, 2021 और 5 मई, 2022 क्रमशः के साथ पठित तथा भारतीय प्रतिभृति एवं बोर्ड ("सेबी परिपत्र") परिपत्र संख्या सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक मई 13, 2022 द्वारा जारी किए गए अनुसार, किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कंपनी की 28वीं एजीएम शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीसी सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रासंगिक सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, 28वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 28वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ ई सहित -वोटिंग वीसी सुविधा के माध्यम से केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते पहले से ही कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को 28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्र (परिपत्रों)

सदस्य केवल वीसी सविधा के माध्यम से 28वींएजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं एजीएम में शामिल होने के निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। 28वीं एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.moongipa.net), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)

और सेबी परिपत्र (त्रों ) के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे 28वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित किए गए सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश उक्त नोटिस में दिए गए हैं। सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("ई-वोटिंग") सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अविध 27 सितंबर, 2022 (सुबह 10:00 बजे) से शुरू होगी और 29 सितंबर, 2022 (05:00 अपराह्न)) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो शक्रवार, 23 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारण करते हैं, वह एजीएम के समय रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

जिन सदस्यों ने कंपनी या आरटीए के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे ईमेल पता दर्ज करने के लिए मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टार और शेयर टांसफ एजेंट को compliance@skylinerta.com पर या कंपनी को moongipacs@gmail.com को अपन नाम, फोलियो नंबर/डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मास्टर या डीमैट होलिंडग के मामले मे समेकित खाता विवरण की प्रति), शेयर प्रमाण पत्र की प्रति–भौतिक धारिता के मामले में आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति के साथ एक अनरोध भेजकर,ई-वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से 28वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और 28वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता पंजीकत कर सकते हैं।

डीमेट धारिता के मामले में, कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ईमेल पता और बैंक खाते के विवरण दर्ज करें। कोई भी व्यक्ति जो 28वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर हासिल करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट–ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को शेयर रखता है, वह 28वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निम्नलिखित निर्देशों का अनुसरण कर या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजने पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर

यदि आपके पास ई-वोटिंग सिस्टम से सम्बंधित एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई–वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत देख सकते हैं य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिखें अथवा टोल फ्री नंबर 1800225533 पर कॉल

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ईमेल पते पर यथासमय भेजी जाएगी। उनके लिए और उनकी तरफ से

मंगीपा सिक्योरिटीज लिमिटेड

दिनांकः 3 सितंबर, 2022 स्थान : दिल्ली

सचिन कुमार

# ऐस इन्टीग्रेटेड सॉल्युशन्स लिमिटेड

CIN:L74140DL1997PLC088373 पंजी. कार्यालयः बी-13, डीएसटाईडीसी कॉम्प्लैक्स, फंक्शनल इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल एरिया पटपड्रगंज, नई दिल्ली-110092

ई-मेल : ceo@aceintegrated.com, cs@aceintegrated.com 25वीं वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोजर

(एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. में बी-13, डीएसआईडीसी कॉम्प्लैक्स, फक्शनल इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल एरिया पटपडगंज, नई दिल्ली-110092 में आयोजित की जायेगी जिसमें 25वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एमसीए/सेबी परिपत्र(त्रों) के अनुसार एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी के ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके नाम 2 सितम्बर, 2022 को कम्पनी/डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं। सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण की प्रक्रिया शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2022 को पूरी कर ली गई है। रिमोट ई-वोटिंग

कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 ("नियमावली"), समय-समय पर यथा-संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग द्वारा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा की सचना में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये अपने सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के विस्तृत निर्देश सदस्यों को भेजी गई वार्षिक साधारण सभा की सचना में वर्णित है।

1. 25वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.aceintegrated.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट https://evotingindia.com पर उपलब्ध है तथा वित्त वर्ष 2021-22 के लिये कम्पनी की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.aceintegrated.com

2. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (9.00 बजे पर्वा.) में शरु होगी। 3. रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी।

4. बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप.) के बाद सीडीएसएल के द्वारा ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनमति नहीं दी जायेगी।

धारित करने वाले सदस्य एजीएम सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। . जिन सदस्यों ने एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी का सदस्य

बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2022 को शेयर धारित करते हों, वे एजीएम की सूचना में दी गई रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों तथा प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना मतदान कर सकते

रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान की सविधा प्राप्त करने

8. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बावजूद भी सदस्य वार्षिक साधारण सभा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सभा में फिर से मतदान की अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी। 9. एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने रिमोट

www.evoting.nsdl.com के सहायता खंड में उपलब्ध Frequently Asked Question

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों दिवस सिहत) तक कम्पनी की 25वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

ऐस इन्टीग्रेटेड सॉल्यूशन्स लिमिटेड के लिए

तिथि: 5 सितम्बर, 2022 स्थानः दिल्ली

हिन्दुस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : कंचनजंगा 7वां तल,

18 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 ई-मेल : investors@hindustan.co.in, वेबसाइट : www.hindusthanurban.com सीआईएन : एल31300डीएल1959पीएलसी003141, दूरभाष सं. +091—11—23310001—05

वीडियो कान्फैंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुएल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाने वाली 62वीं वार्षिक आम सभा की सचना एतदृद्वारा सुचना दी जाती है कि साधारण सर्क्यूलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य सभी लागू होने वाले कानूनों तथा सर्क्यूलर के अनुपालन में हिन्दुस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सदस्यो

की 62वीं वार्षिक आम सभी (एजीएम) मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में वीडियो कान्फ्रैंस

(वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें सभा की सूचना में वर्णित

उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम सभा की सूचन इलेक्टॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकत हैं। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार अर्थात स्काइलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, फोन : 011-4050193/197, ईमेल आईडी Compliance@skylinerta.com के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाईल नम्बर पंजीकृत करा लें। सदस्यगण ध्यान रखें कि वार्षिक आम सभी की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.hindusthanurban.com तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। ईमेल द्वारा सचना का प्रेषण 3 सितम्बर, 2022 को पुरा कर लिया गया है शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सचना में वर्णित व्यवसायों पर रिमोटली अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिए रिमोटली मतदान करने का तरीका शेयरधारकों के लिये सूचना में भी उपलब्ध कराई गई है। यह विवरण कम्पनी की वेबसाईट अर्थात

हिन्दुस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए

स्थान : दिल्ली तिथि : 3.9.2022

www.hindusthanurban.com पर भी उपलब्ध है।

एम.एल. बिरमीवाल अध्यक्ष-वित्त एवं सचिव

# कोमिया बायोसाइसेस लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः ग्राम भोण्डसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गाँव, हरियाणा इमेलः compliance.kimia@gmail.com. वेबसाईटः www.kimiabiosciences.com

CIN: L24239HR1993PLC032120, टेली: 011-47063600, 91 9654206544 +919654746544

> फैक्स: 011-47063601/02 वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जाने वाली 29वीं वार्षिक आम सभा की सार्वजनिक सुचना

कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा इस विषय पर जारी लागु ऐने वाले सभी सर्क्युलर्स के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागु होने वाले सभी प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सृचीधन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले सभी प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की उन्नतीसवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अन्य ऑडियो बिजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 3.30 बजे अप. (आईएसटी) में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम आमंत्रण सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2021–22 के स्टैंडलॉन अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड का रिपोर्ट, ऑडिट का रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किये जाने के लिये वांछित अन्य दस्तावेज इलेक्टॉनिक रूप से कम्पनी के उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कम्पनी/बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं।

एक्स्चेंज बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट, बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेडः beetalfinancial.com पर उपलब्ध है। यदि आपने कम्पनी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करायें हैं तो वित्त वर्ष 2021 22 का वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए नीचे दिए गये निर्देशों का पालन करें।

एजीएम की सुचना तथा उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.kimiabiosciences.com तथा स्टॉक

भौतिक भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपना ईमेल पता पंजीकत/अधत धारिता नहीं करायें हैं, से आग्रह है कि वांछित समर्थक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरी गई प्रपत्र आईआरआर-🛮 1 (कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध) बीटल हाउस, 3 रा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062 में बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस लिमिटेड के पास जमा कर अपना ईमेल पता पंजीकत/अधतन करा लें।

डिमैट डिमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास अपना ईमेर धारिता पता पंजीकत/अधतन नहीं कराये हैं. से आगृह है कि जहाँ उनका डिमैट, खाता पूर्वाधत है, उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास उसे पंजीकृत /अपडेट करा लें।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 29वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा 29वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग में भाग लेने अथव 29वीं एजीएम के दौरान एमएसडीएल की ई-सेटिंग प्रणाली द्वारा मतदान करने का तरीका 29वीं एजीएम की सूचन में उपलब्ध कराई जाएगी। इस सूचना में भौतिक पद्धत्ति या इलेक्ट्रानिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे शेयर धारकों जिन्होंने कम्पनी अथवा संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास इमेल पता पंजीकत हक नहीं किये हैं. वे लिए लॉगिन क्रेडेन्शियल से संबंधित निर्देश शामिल होगा। वीसी/ओएवीएम सविधा द्वारा शामिल होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। किसी प्रकार की पृछताछ/समस्या के लिये सदस्य beetalrta@gmail.com पर आरटीए अथवा Compliance.kimia@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। कीमिया वायोसाइंसेस लिमिटेड के लि

तिथि : 3 सितम्बर, 2022 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./- लक्ष्य प्रकाश कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

# रघुनाथ इण्टरनेशनल लिमिटेड

CIN No.: L52312UP1994PLC022559 पंजीकृत कार्यालयः 8/226, द्वितीय तल, एसजीएम प्लाजा, आर्य नगर, कानपुर, उ०प्र0-208002 प्रशासनिक कार्यालयः ६९२६, जयपुरिया मिल, क्लाक टावर, सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007

28वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) एवं रिमोट ई-वोटिंग व बुक क्लोजर की सूबना

वेबसाइटः www.raghunathinlimited.in ई-मेल: rgc.secretarial@gmail.com

इस नोटिस के द्वारा सचना दी जाती है कि:-

 कम्पनी रघुनाथ इन्टरनेशनल लिमिटेड की 28वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 8/226, द्वितीय तल, एसजीएम प्लाजा, आर्य नगर, कानपुर-208002 में आयोजित की जायेगी, जिसमें दिनांक 27 अगस्त, 2022 की सूचना में वर्णित साधारण एवं विशेष व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।

कम्पनी के सदस्यों / अंशधारकों का रजिस्टर और शेयर्स ट्रान्सफर बुक्स दिनांक 23 सितम्बर 2022 से दिनांक 29 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगें।

सभी वैध शेयर्स के भौतिक रूप में प्रभावी हस्तान्तरण होने के पश्चात कम्पनी के सदस्यों का सामयिक रजिस्टर कम्पनी / रजिस्टार एवं अशं-हस्तान्तरण अभिकर्ता मेसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, 1, नोबल हाईटस, प्रथम तल, सी-1 ब्लाक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के समक्ष दर्ज हैं।

कम्पनी ने एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ, उपस्थिति पर्ची के साथ प्रॉक्सी फार्म एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों को भेज दी हैं, जिनके ईमेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी / आरटीए के पास

कम्पनी ने एजीएम की सचना उपस्थिति पर्ची के साथ बैलेट फार्म (रिमोट ई-वोटिंग के अतिरिक्त) की भौतिक प्रतियाँ (फिजिकल फॉर्म) उचित माध्यम से उन सभी सदस्यों को भी भेज दी हैं, जिनकी ईमेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी / आरटीए के साथ पंजीकत नहीं हैं।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेवसाइट www.raghunathintlimited.in पर भी उपलब्ध है एवं सामान्य कार्य दिवसों (सार्वजनिक अवकाशों को छोडकर) में व्यवसायिक अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है। कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा संशोधित नियम 20 तथा सचियन विनियमी

के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-108 के विनियम 44 (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों पर मतदान के लिए इलेक्ट्रानिक सुविधा, रिमोट ई-वॉटिंग प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वॉटिंग की अवधि सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2022 को भारतीय समयानसार सबह 9:00 बजे प्रारम्भ होगी और बधवार दिनांक 28 सितम्बर, 2022 को भारतीय समयानुसार साथ 5:00 बजे समाप्त होगी। सदस्य (एनएसडीएल) की वेवसाइट www.evoting.nsdl.com पर एजीएम की सूचना के नोट सं0-18 में दिये निर्देशों का पालन करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं।

कटऑफ तिथि दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयरों को धारण करने वाले सदस्य इलेक्ट्रानिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। उक्त अवधि के बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग मॉडयूल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे पुनः संशोधित नहीं किया जा 9. मतदान का अधिकार सदस्यों द्वारा गुरूवार दिनांक 22 सितम्बर, 2022 (कटऑफ तिथि) को

धारित शेयरों की संख्या के अनुसार होगा। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए तभी पात्र होंगे जब उनके पास उक्त दिनांक को शेयर्स होंगे अथवा वे कम्पनी के अंशधारक होंगे। 10. जिन सदस्यों तक ई-वोटिंग सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, कम्पनी ने उन सदस्यों को भी सुविधा

प्रदान की है कि वे सभी सदस्य विलीय वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न पोस्टल बैलेट फार्म पर लिखित रूप में अपनी सहमति या असहमति भेज सकते हैं, लेकिन यह सुविधा केवल एजीएम में भौतिक रूप से उपस्थित होने पर ही उपलब्ध है।

11. ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी पूछताछ के लिए आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध निरन्तर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ईवोटिंग मैनुअल सेक्शन का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नम्बर-1800-0222-990 पर कम्पनी रजिस्ट्रार, मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनके विनिदेशित ई-मेल santanu.mukhopadhyay@linkintime.co.in पर जानकारी

12. यदि सदस्य अपना वोट दोनों प्रक्रियाओं यानि रिमोट ई-वोटिंग और बैलेट फार्म के माध्यम से

डालते हैं तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानि ई-वोटिंग द्वारा डाले गये वोटों को लिया जायेगा और बैलेट फार्म के द्वारा डाले गये वोटों को नजरंदाज किया जायेगा। वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में प्रवेश उपस्थित पर्ची द्वारा नियंत्रित किया जायेगा, जो एजीएम

की सूचना के साथ संलग्न है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में विधिवत हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची लायें और उसे प्रवेश द्वार पर साँप दें। कोई भी सदस्य अपने रिमोट ई—वोटिंग अधिकार के माध्यम से वोट देने के बाद भी एजीएम में

भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

15. संवीक्षक / जॉचक अपनी अन्तिम रिपोर्ट वार्षिक साधारण सभा में मतदान के समापन के बाद प्रस्तुत करेंगे। यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 01 अक्टूबर, 2022 है। कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त 28वीं वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तावित निर्णयों / प्रस्तावों के परिणाम की उदघोषणा संवीक्षक / जॉचक की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने

17. कम्पनी ने कोविड-19 के सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विधिवत अनुपालन करते हुए उक्त वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की

कृते रघुनाथ इण्टरनेशनल लिमिटेड

(जी.एन. चौधरी) पूर्ण कालिक निदेशक DIN: 00012883

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक

शेयर विभाग,बोर्ड और समन्वय प्रभाग प्लाटसंख्या.४, द्वारकासेक्टर10, नई दिल्ली-110075 ई-मेल आईडी:hosd@pnb.co.in Tel: 011-28044857

सार्वजनिक सूचना

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बैंक का शेयर प्रमाण पत्र खोने/ गुम /चोरी होने के रूप में रिपोर्ट कियो गया है और इसके पंजीकृत धारक/दावेदार ने डप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनरोध किया है:

शेयरों की विशिष्ट संख्या प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे/उन्हें इस सुचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन

के भीतर अपने दावे या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर,

उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जाता है तो डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र/ पुष्टिकरण

पत्र जारी किया जाएगा। सामान्य जन को उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से सावधान किया

दिनांक: 03.09.2022 कते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान : नई दिल्ली

**पंजीकृत कार्यालय:** खसरा नं0: 928, एक्सटेंडेड लाल डोरा आबादी, विलेज कापसहेडा, तहसील बसंत विहार, नई दिल्ली साउध वेस्ट दिल्ली -110037 CIN: L74999DL2001PLC147724, फोन: 011- 41771850 ईमेलः cs@v2retail.net.in, वेबसाइटः www.v2retail.com

कंपनी सचिव

सदस्यों को 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और ईमेल पतों के अपढेशन की सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020 और परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्गित) और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफढी / सीएमढी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए

विजुअल साघनों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को लेनदेन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की घारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन हेत् गिना जाएगा। परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021-22 ('वार्षिक रिपोर्ट') के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस नियत समय में केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट

('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.v2retail.com, स्टॉक

परिपत्र और सेबी परिपत्र सामृहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित), एतदद्वारा सूचना दी जाती

हैं कि वी2 रिटेल लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की इक्कीसवीं (21वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम')

शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को सुबह 09:30 बजे (आईएसटी) वीढियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडिया

एक्सचेंजों की वेबसाई यानि बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('लिंक–इनटाइम') की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों को सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई—वोटिंग सविद्या (एजीएम में) के माध्यम से इलेकटॉनिक रूप से अपना वोट ढालने की सविद्या प्रदान की जाएगी। बोट डालने की सुविधा लिंक-इनटाइम द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा वीसी∕ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंन रिमोट ई–वाटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। वे सदस्य जिन्होने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट ढाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल/भाग ले सकते हैं। लेकिन एजीएम में वोट देने

ई-मेल पते पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिनके ई—मेल पते पंजीकत नहीं हैं, वह आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., किसी एक वैध शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी (आगे एवं पीछे दोनों) के साथ शेयरघारक का नाम जमा करते हुए अपने ई-मेल आईढी से cs@v2retail.net.in पर मेजकर पंजीकृत करा सकते हैं।

के लिए पात्र नहीं होंगे। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग, ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया और तरीके तथा

एजीएम नोटिस में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वह अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागी को सम्पर्क करके अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा सकते हैं। सदस्यों (भौतिक प्रारूप या ढिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्य) को ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए लॉगइन विवरण इस प्रयोजन के लिए उनके पंजीकृत ई—मेल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

कृते वी 2 रिटेस सिमिटेड सुधीर कुमार कंपनी सविव

स्थानः नई दिल्ली

विधिः 03 सितम्बर, 2022

dhampur धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

पंजी. कार्वालयः शुगर मिल परिसर, ग्राम असमोली, संमल, मुरादाबाद, वृ.पी–244304 ई-मेलः investors@dhampur.com, वेबसाइटः www.dhampur.com, फोन: +91-7302318313, CIN: U15100UP2020PLC136939

कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि दूसरी एजीएम की सूचना में निर्घारित सामान्य एवं विशेष कामकाज के निष्पादन के लिए घामपुर बायो आर्गेनिक्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरएमएसडी इंटरप्राइजेज प्राइवेट

लिमिटेड) ("कंपनी") के सदस्यों की दूसरी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को दोपहर 4.00 क्जे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमॉ (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् शुनर मिल परिसर, ग्राम असमोली, संभल, मुरादाबाद, युपी-244304 माना जाएगा। कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्रों 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 20/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 एवं 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति तथा विनिभय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक

12 मई, 2020, परिपत्र सं. सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक

15 जनवरी, 2021 और परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफढी / सीएमढी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62

दिनांक 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक

उपस्थिति के बिना एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई है

और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की उपस्थिति की गणना एजीएम के लिए कोरम की लाग् परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को मेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच शनिवार, 3 सितम्बर, 2022 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना और वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त कथित एमसीए/ सेबी परिपत्रों के अनुसरण में समाप्त कर दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और दूसरी एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com और एनएसढीएल की वेबसाइट

www.bseindia.com एवं www.nseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है (बीएसई एवं एनएसई पर शेयर की लिस्टिंग के बाद)।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश: कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को दूसरी एजीएम में प्रस्तावित संकल्पों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग हेत इलेक्टोंनिक वोटिंग सविधा

https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा

ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 सितम्बर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा. केवल वही दसरी एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा व्यक्ति जो कथित कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इसे सुबना का प्रयोजन मात्र समझे।

सदस्यों का वोटिंग अधिकार सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के आनुपातिक होगा। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंग होगी और रविवार, 25

देने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिकली वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यगण जो कट-ऑफ तिथि से पूर्व एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद शेयर अधिग्रहित करते हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपना वोट देने के लिए यूजर आईडी एवं

सितम्बर, 2022 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। रविवार, 25 सितम्बर, 2022 को सायं 5:00

बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉब्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट

पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना का अवलोकन करें। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट देने के लिए योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते

हैं लेकिन उन्हें बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-बोटिंग, एजीएम में ई-बोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं पद्धति एवं वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपरिथत होने के निर्देश एजीएम सूचना में दिये गये हैं और यह कंपनी की वेबसाइट www.champur.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी

किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए आप एनएसढीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सैक्शन में सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं। सदस्यगण जिन्हें तकनीक के उपयोग पर एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान कोई सहायता वाहिए वे निम्नानुसार सम्पर्क कर सकते हैं:

क) evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेजें या टोल फ्री नंo. 1800-222-990 का उपयोग करें; या ख) सुश्री सरिता गोते, सहायक प्रबंधक, एनएसढीएल से निर्देश्ट ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in एजीएम से पूर्व एवं एजीएम के दौरान वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए साकेत शर्मा (एफसीएस: 4229), पार्टनर, मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएटस, कंपनी

सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ई-मेल पता पंजीकरण करने की प्रक्रिया

कंपनी की सम्पूर्ण शेयरघारिता डिमेट प्रारूप में है। जिन सदस्यों को ई-मेल आईडी अपने डिपोंजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकत नहीं हैं. उन्हें ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजने के सीमित प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्यगण अपना डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अक्षर लागार्थी आईडी या एनएसडीएल 16-अक्षर डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति) को कंपनी को investors@dhampur.com/ पर/आरटीए ई-मेल आईडी rta@alankit.com पर उपलब्ध कराकर अपना ई-मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं या लिंक https://mailupd.alankit.com को देखें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत कराएं। कृते घामपुर बायो ऑर्नेनिक्स सिमिटेड

> 5KE./-आशु रावत कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली विनांकः 03 सितम्बर, 2022

एम. नं0. 22810

पुरानी जीटी रोड, वेटेरिनरी टॉस्पीटल, होडल, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 The state of the s

the Notice of AGM which will be sent in due course of time

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY

Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / evoting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above.

Vandana Gupta

कंपनी सचिव एम.सं: ए६१५२५

तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी के लिये सचना एतदद्वारा सचित किया जाता है कि ऐस इन्टीगेटेड सॉल्यशन्स लिमिटेड की 25वीं वार्षिक साधारण सभा

5. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2022 को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर

("FAO's) तथा ई-वोटिंग यजर मैन्यअल देखें अथवा टोल-फ्री नम्बर 18001020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल करें या सरिता मोते को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

> चन्द्रशेखर वर्मा प्रबन्ध निदेशक ( डीआईएन : 01089951

दिनांकः 03 सितम्बर, 2022

www.readwhere.com

Place: New Delhi

Dated: 03-09-2022

The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by

available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in. or can also contact with RTA Mas Services Limited, Mr. Shrawan Mangla, Manager, at

10. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the website of the Company at www.shivalikbimetals.com and on RTA's website at

Company Secretary

दूरभाष नं. : 011-49537949, 011-22162970, वेबसाइट : www.aceintegrated.com

7. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के

ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों. वे एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में 10. एजीएम में शामिल होने तथा ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों के लिए आप वेबसाईट

कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकों का बंद होना

स्थानः कानपुर

28वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सदस्यों को सूचना

("सीडीएसएल") (www.evotingindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।